



क्रम सं/SL No :044195580



पेटेंट कार्यालय, भारत सरकार

The Patent Office, Government Of India

पेटेंट प्रमाण पत्र

Patent Certificate

(पेटेंट नियमावली का नियम 74)

(Rule 74 of The Patents Rules)

पेटेंट सं. / Patent No. : 557992

आवेदन सं. / Application No. : 202441043802

फाइल करने की तारीख / Date of Filing : 06/06/2024

पेटेंटी / Patentee

National Institute of Technology Karnataka

आविष्कारकों का नाम /Name of Inventor(s) :

1.Badekai Ramachandra Bhat 2.Shreeganesh Subraya Hegde

प्रमाणित किया जाता है कि पेटेंटी को, उपरोक्त आवेदन में यथाप्रकटित THE PROCESS OF DETECTING THE DENGUE VIRUS USING AN ULTRASENSITIVE HIGH-SURFACE POROUS CARBON-BASED ELECTROCHEMICAL BIOSENSOR नामक आविष्कार के लिए, पेटेंट अधिनियम, 1970 के उपबंधों के अनुसार आज तारीख जून 2024 के छठे दिन से बीस वर्ष की अवधि के लिए पेटेंट अनुदत्त किया गया है।

It is hereby certified that a patent has been granted to the patentee for an invention entitled THE PROCESS OF DETECTING THE DENGUE VIRUS USING AN ULTRASENSITIVE HIGH-SURFACE POROUS CARBON-BASED ELECTROCHEMICAL BIOSENSOR as disclosed in the above mentioned application for

the term of 20 years from the 6th day of June 2024 in accordance with the provisions of the Patents Act,1970.



Signature and Controller of Patents

अनुदान की तारीख : 15/01/2025
Date of Grant :

टिप्पणी - इस पेटेंट के नवीकरण के लिए फीस, यदि इसे बनाए रखा जाना है, जून 2026 के छठे दिन को और उसके पश्चात प्रत्येक वर्ष में उसी दिन देय होगी।
Note. - The fees for renewal of this patent, if it is to be maintained, will fall / has fallen due on 6th day of June 2026 and on the same day in every year thereafter.